



**थाना नौगावां सादात प्रेस नोट दिनांक 30.03.2021**

**थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा हत्या की घटना का 18 घंटे में सफल अनावरण कर हत्यारोपी अभियुक्त मय आलाकत्ल गिरफ्तार ।**

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा कल दिनांक 29.03.2021 की शाम कस्बा नौगावां सादात के मौहल्ला गौतमनगर में युवक की गोली मारकर हत्या करने की घटना का खुलासा कर हत्यारोपी अभियुक्त आलाकत्ल सहित गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि कल दिनांक 29.03.2021 की शाम समय करीब 05.30 बजे थाना नौगावां सादात पर मौहल्ला गौतमनगर में युवक की गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई । उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना नौगावां सादात मय फोर्स के तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटना की सूचना उच्चाधिकारीगण को दी । मृतक की शिनाख्त बबलू पुत्र करण (उम्र 22 वर्ष) निवासी मौ0 गौतमनगर बुद्ध बाजार थाना नौगावां सादात के पास के रूप में हुई तथा गोली मारने वाले अभियुक्त की पहचान सोनू पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ग्राम हाफिजपुर थाना नौगावां सादात के रूप में हुई है । मृतक बबलू के परिवारीजन अभियुक्त सोनू उपरोक्त को पहले से जानते थे जिसका उनके घर पर भी आना जाना था । घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती सुनीति, जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण के साथ मौके पर पहुंची तथा सर्विलांस/एस0ओ0जी0 टीम व फील्ड यूनिट को साथ लेकर घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया तथा उक्त घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा मौके पर ही सर्विलांस, एस0ओ0जी0 सहित कुल 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया । मृतक बबलू के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी धर्मेन्द्र (मृतक का भाई) की तहरीर पर थाना नौगावां सादात पर मु0अ0स0 124/2021 धारा 302,452 भादवि 3(2)5 SC.ST. Act बनाम सोनू पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ग्राम हाफिजपुर थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा व 02 अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

उक्त घटना का अनावरण करते हुये आज दिनांक 30.03.2021 को थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त की तलाश मे मामूर थी कि सूचना पर अभियुक्त सोनू पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ग्राम हाफिजपुर थाना नौगावां सादात को खेतापुर बाईपास से मय आलाकत्ल (तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर) व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल टी.वी.एस. स्पोर्ट DL4SBY2803 सहित गिरफ्तार



### पूछताछ विवरण:-

पूछताछ पर अभियुक्त सोनू द्वारा बताया गया कि मेरे मृतक बबलू की बहन ममता से करीब 10-12 वर्ष पूर्व से प्रेम संबंध थे वह लगातार मेरे साथ संबंध में थी लेकिन पिछले 6 माह से उसने मुझसे संबंध तोड़ लिए थे वह मेरे साथ बात नहीं कर रही थी। इसी बात को लेकर मैं कल शाम को गुस्से में ममता के घर आया था कि या तो ममता मेरी बात मानेगी नहीं तो मैं आज उसे मार दूंगा परन्तु ममता ने मेरी बात नहीं मानी तथा उसने अपने भाइयों को बुला लिया। उसके भाइयों ने अंदर से घर का दरवाजा बंद करना चाहा व पुलिस को सूचना दे रहे थे तो मैंने ममता के भाई बबलू को गोली मार दी जिससे उससे की मृत्यु हो गई तथा ममता को भी मारने का प्रयास किया लेकिन ममता वहां से भाग गई। भीड़ इकट्ठी होने पर मैं वहां से फरार हो गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सोनू पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ग्राम हाफिजपुर थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा।

### बरामदगी:-

1. तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर (आलाकत्ल)।
2. घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल रजि0न0 DL4SBY2803।

## आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू:-

1. मु0अ0स0 124/2021 धारा 302,452 भादवि 3(2)5 SC.ST. Act थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0स0 125/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0स0 364/2015 धारा 25 आयुद्ध अधिनियम थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।

## गिरफ्तार करने वाली टीम:-

### टीम प्रथम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।
2. वरि0उ0नि0 श्री रमेश सहरावात थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 श्री कमल सिंह थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।
4. का0 1127 श्यामवीर सिंह थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।
5. का0 433 कौशल कुमार थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।

### टीम द्वितीय

1. निरीक्षक श्री मौहित चौधरी प्रभारी एस.ओ.जी/सर्विलांस जनपद अमरोहा ।
2. ह0का0 अनिल कुमार सर्विलांस टीम जनपद अमरोहा ।
3. का0 विजय शर्मा एस.ओ.जी टीम जनपद अमरोहा ।
4. का0 कमल एस.ओ.जी टीम जनपद अमरोहा ।

